



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8--जनवरी 14, 2005, (पौष 18, 1926)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8--JANUARY 14 2005 (PAUSA 18, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of
Defence]

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

(सेवानिवृत्त) को दिनांक 16 फरवरी 2004 (पूर्वाह्न) से ई.एम.ई. कोर,
रक्षा मंत्रालय में कार्यकारी अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2005

एन. के. कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 14, दिनांक 9 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा
(एपी-73) की अधिकारी श्रीमती शीला भिडे को रक्षा मंत्रालय के वित्त
प्रभाग में 01 नवम्बर 2004 के पूर्वाह्न से वित्तीय सलाहकार (अधिग्रहण) एवं
सदस्य, रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड तथा अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री आर.डी. गुप्ता को रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग) में दिनांक 18 अक्टूबर 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों
तक, सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं।

एम. सी. लूथर
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सं. 16, दिनांक 15 दिसम्बर 2004--थल सेना अनुदेश 37/78 तथा
उसमें जारी किये गए संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित
नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
सीधा स्थायी कमीशन
लैफ्टि. के पद पर (परख पर)

डी आर-10577एन राहुल राय, 20 अगस्त 2004

थल सेना शाखा
विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियर कोर

परमजीत सिंह
मेजर जनरल
अपर निदेशक

सं. 15, दिनांक 10 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, कर्नल यू. के. मित्रा

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 17, दिनांक 14 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

श्रीमती एन. श्रीलक्ष्मी को अस्थायी रूप से वैज्ञानिक डी ग्रेड में एक साल की परखावधि पर डी.एल.आर.एल., हैदराबाद में 28 अगस्त 2002 पूर्वाह्न से वेतनमान रु. 12,000-375-16,500 पर।

श्रीमती वी. सरला को अस्थायी रूप से वैज्ञानिक डी ग्रेड में एक साल की परखावधि पर एल.आर.डी.ई., बेंगलूर में 28 अगस्त 2002 पूर्वाह्न से वेतनमान रु. 12,000-375-16,500 पर।

श्री नरेन्द्र कुमार को अस्थायी रूप से वैज्ञानिक डी ग्रेड में एक साल की परखावधि पर सी.ए.आई.आर., बेंगलूर में 13 जनवरी 2003 पूर्वाह्न से वेतनमान रु. 12,000-375-16,500 पर।

जे के खडवाल
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 18, दिनांक 15 दिसम्बर 2004--निम्नांकित को उनकी नौसेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कैप्टन-इन-चीफ का अवैतनिक पद दिया जाता है :--

एडमिरल अरुण प्रकाश, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वीर चक्र, वि.से. मे., ए.डी.सी.नौसेना अध्यक्ष नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110 011--31 जुलाई 2004

जतिन्द्र सिंह
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक (एम एस)

थल सेना विभाग

सं. 19, दिनांक 10 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं। पद और बहाली की तिथि नाम के सामने अंकित है :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जी.डी.) के रैंक में

सूबेदार मेजर श्रीधरण के एम (जेसी-158511के), पहले आर्टी, 03 मई 2003

सूबेदार मेजर मेघ बहादुर गुरूंग (जेसी-164848एच), पहले जैक राइफल, 04 मई 2003

सूबेदार मेजर भास्करण नमबियार कुझुकुन्नान ओथायोथ (जेसी-141605एल), पहले आर्मर्ड, 12 जुलाई 2003

सूबेदार मेजर तखत सिंह (जेसी-171069एच), पहले आर्टी, 02 जनवरी 2004

सूबेदार मेजर यशपाल सिंह (जेसी-182622ए), पहले बंगाल इंजीनियर ग्रुप, 03 जनवरी 2004

सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

सूबेदार अमी चन्द (जेसी-224477एक्स), पहले जैक राइफल, 02 मई 2003

सूबेदार सन्तोख सिंह (जेसी-216734पी), पहले गार्ड, 03 मई 2003

सूबेदार सुनील कुमार गुरूंग (जेसी-205718एक्स), पहले जैक राइफल, 03 मई 2003

सूबेदार मनबर सिंह (जेसी-528057एन), पहले गढ़वाल राइफल, 03 मई 2003

सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-178320डब्ल्यू), पहले जैक राइफल, 05 मई 2003

सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-203856ए), पहले जैकलाई, 11 मई 2003

सूबेदार अमृत कुमार पुन (जेसी-208247ए), पहले 58 गोरखा राइफल, 12 जुलाई 2003

सूबेदार प्रशाद लामा (जेसी-219816एच), पहले 58 गोरखा राइफल, 02 जनवरी 2004

सूबेदार बलबीर सिंह चिब (जेसी-592081एल), पहले जैकलाई, 02 जनवरी 2004

सूबेदार भरत सिंह (जेसी-174349एफ), पहले ईएमई, 02 जनवरी 2004

सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-448073एक्स), पहले ग्रेनेडीयर्स, 02 जनवरी 2004

सूबेदार भोज बहादुर गुरूंग (जेसी-183554के), पहले 58 गोरखा राइफल, 02 जनवरी 2004

सूबेदार चौक बहादुर (जेसी-578162ए), पहले जैक राइफल, 04 जनवरी 2003

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह (जेसी-841507एक्स), (146179ए), पहले नेमी, 12 जुलाई 2003

नायब सूबेदार ओम प्रकाश वर्मा (जेसी-368081एच), पहले सिगनल, 16 जुलाई 2003

टी.के.एम. पिल्लै
अवर सचिव

(सेना विभाग)

सं. 20, दिनांक 13 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

(नियमित सेना)

इन्फैन्ट्री

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रामलिंग साली (सं. 2588069वाई अब जेसी-439405पी), 19 मार्च 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क के रैंक में

हवलदार/क्लर्क नारायणन् के (सं. 2588441एल अब जेसी-439334वाई), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार/क्लर्क जगदीश चन्द्र (सं. 2588447एम अब जेसी-439393एल), 01 मई 2004

हवलदार/क्लर्क विरेन्द्र सिंह (सं. 2588494के अब जेसी-439398के), 01 जून 2004

हवलदार/क्लर्क शुभ नारायण चौधरी (सं. 2588613पी अब जेसी-439408एच), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मासेसे सेल्वराज (सं. 2587671एम अब जेसी-439389एच), 19 अप्रैल 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार नारायण एम पी (सं. 2585515के अब जेसी-439391ए), 01 मई 2004

हवलदार रामन् जी (सं. 2590827के अब जेसी-439397एफ), 01 मई 2004

हवलदार आई मडलाई मुथुराज (सं. 2584344डब्ल्यू अब जेसी-439402एफ), 05 मई 2004

हवलदार कुमार के एस (सं. 2586437के अब जेसी-439403के), 10 मई 2004

हवलदार ग्नानाशेकर एस (सं. 2591787ए अब जेसी-439414डब्ल्यू), 11 मई 2004

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कैलाश चन्द जाट, सेना मेडल (सं. 13615048एच अब जेसी-412857डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004)

हवलदार शीश पाल (सं. 13615531एम अब जेसी-412858डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार मुखराम गुजर (सं. 13615298के अब जेसी-412860एन), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार रंजीत सिंह, सेना मेडल (सं. 2476645डब्ल्यू अब जेसी-412861डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

हवलदार गंगा राम (सं. 3982535डब्ल्यू अब जेसी-412862वाई), 01 मार्च 2004

हवलदार मिलाप चन्द (सं. 13614950एक्स अब जेसी-412863एफ), 01 मार्च 2004

हवलदार ओंकार देव शर्मा (सं. 13750357वाई अब जेसी-412864के), 01 मार्च 2004

हवलदार संसार चन्द (सं. 3983711पी अब जेसी-412865एम), 01 मार्च 2004

हवलदार देवराज (सं. 13615074के अब जेसी-412866पी), 22 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी 2004)

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 13615373एच अब जेसी-412867एक्स), 22 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार सुजन सिंह (सं. 13615488डब्ल्यू अब जेसी-412868ए), 10 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 13615539वाई अब जेसी-412869एच), 02 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2003)

हवलदार पदमेश्वर गोगाई (सं. 13616527डब्ल्यू अब जेसी-412870एक्स), 01 जून 2004

हवलदार भंवर राम घेरू (सं. 13614425एफ अब जेसी-412871ए), 09 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार चन्द्रपाल सिंह (सं. 13614539एम अब जेसी-412872एच), 01 अप्रैल 2004

हवलदार दीपक कुमार (सं. 13615035एम अब जेसी-412873एल), 10 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अगस्त 2003)

हवलदार बद्री प्रसाद (सं. 13615174पी अब जेसी-412874एन), 01 अप्रैल 2004

हवलदार विजय सिंह (सं. 13615234एक्स अब जेसी-412875डब्ल्यू), 10 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 सितम्बर 2003)

हवलदार शीश राम (सं. 13615347एम अब जेसी-412876वाई), 22 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार विनोद बहादुर सिंह (सं. 13615402एम अब जेसी-412877एफ), 10 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जनवरी 2004)

हवलदार अर्जुन सिंह राठौर (सं. 13615407वाई अब जेसी-412878के), 10 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2004)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 3179995एल अब जेसी-412879एम), 01 जून 2004

हवलदार शशिधरन नायर एस (सं. 13615492वाई अब जेसी-412880एफ), 01 जून 2004

हवलदार कम्बाले मोहन तुकाराम (सं. 13615734डब्ल्यू अब जेसी-412881के), 01 जून 2004

हवलदार धोमस मैथ्यू (सं. 13616439ए अब जेसी-412882एम), 01 जून 2004

हवलदार अब्राहम डेविड (सं. 13617402एल अब जेसी-412883पी), 01 जून 2004

हवलदार शशी कुमार टी (सं. 13617419वाई अब जेसी-412884एक्स), 01 जून 2004

हवलदार अरेकर पांडुरंग शंकर (सं. 13617591ए अब जेसी-412885ए), 01 जून 2004

हवलदार बिजय कुमार मिश्रा (सं. 13617710एल अब जेसी-412886एच), 01 जून 2004

नायब सूबेदार (लिपिक)

हवलदार लिपिक धरम सिंह (सं. 13614278के अब जेसी-412859वाई), 01 मर्च 2004

सिख रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शिंगारा सिंह (सं. 3385160डब्ल्यू अब जेसी-499416एल), 24 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 3386631एल अब जेसी-499417एन), 25 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार टेहल सिंह (सं. 3387109पी अब जेसी-499418डब्ल्यू), 18 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 3387133एल अब जेसी-499419वाई), 18 मई 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 3386439एफ अब जेसी-499420एन), 26 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004)

हवलदार जगविन्दर सिंह (सं. 3386214वाई अब जेसी-499421डब्ल्यू), 21 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मई 2004)

हवलदार तरलोचन सिंह (सं. 3384912एच अब जेसी-499422वाई), 25 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जून 2004)

हवलदार बचितर सिंह (सं. 3385140एच अब जेसी-499423एफ), 28 जून 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जून 2004)

डोगरा रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुलवन्त राज (सं. 3981456पी अब जेसी-519870पी), 25 अप्रैल 2004

हवलदार उधम सिंह (सं. 3982254ए अब जेसी-519871एक्स), 02 मई 2004

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3982598वाई अब जेसी-519872ए), 03 मई 2004

हवलदार शिव कुमार (सं. 3981493एच अब जेसी-519873एच), 20 मई 2004

हवलदार देव राज (सं. 3982523एफ अब जेसी-519874एल), 01 जून 2004

हवलदार सीता राम (सं. 3982617वाई अब जेसी-519875एन), 22 जून 2004

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कर्मबीर (सं. 3175450डब्ल्यू अब जेसी-489503एल),
03 मार्च 2004*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार इन्द्रपाल सिंह तेवतिया (सं. 3175798एल अब जेसी-489504एन), 01 जनवरी 2004

हवलदार विजय सिंह (सं. 3177315एफ अब जेसी-489505डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2004

हवलदार राजबीर (सं. 3175560एल अब जेसी-489506वाई),
01 जून 2004

हवलदार पुरखा राम (सं. 3177594एक्स अब जेसी-489507एफ),
01 जुलाई 2004

हवलदार भिकी सिंह (सं. 3177827एन अब जेसी-489508के),
01 जुलाई 2004

हवलदार राजेश कुमार (सं. 3186732पी अब जेसी-489509एम),
04 जुलाई 2004

हवलदार राधा किशन (सं. 3174193एक्स अब जेसी-489510एफ),
25 जुलाई 2004

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 3385918डब्ल्यू अब जेसी-499424के),
17 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी 2004)

हवलदार गुरमैल सिंह (सं. 3386585एफ अब जेसी-499425एम),
28 मई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 3386443के अब जेसी-499426पी),
26 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2004)

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 3384885के अब जेसी-499427एक्स),
27 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मई 2004)

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 3384913एल अब जेसी-499428ए),
16 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004)

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 3384178ए अब जेसी-499429एच),
16 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 3384857एक्स अब जेसी-499430एक्स),
16 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004)

हवलदार गुरबक्स सिंह (सं. 3385953वाई अब जेसी-499431ए),
13 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004)

हवलदार दलविन्दर सिंह सेना मेडल (सं. 3389631डब्ल्यू अब जेसी-499432एच), 15 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जून 2004)

गढ़वाल राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दिगपाल सिंह (सं. 4059763एम अब जेसी-529617एफ)
25 मई 2004*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार बालम सिंह (सं. 4064553डब्ल्यू अब जेसी-529618के),
01 फरवरी 2004

हवलदार किशोर कुमार (सं. 4065813एच अब जेसी-529619एम),
01 फरवरी 2004

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 4062472एक्स अब जेसी-529620एफ),
01 फरवरी 2004

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4062677एम अब जेसी-529621के),
09 फरवरी 2004

हवलदार विशाल मणी (सं. 4063013एल अब जेसी-529622एम),
21 मार्च 2004

हवलदार चन्द्र सिंह (सं. 4061714एच अब जेसी-529623पी),
21 मार्च 2004

हवलदार प्रभु दयाल (सं. 4061818के अब जेसी-529624एक्स),
21 मार्च 2004

हवलदार सरदार सिंह पेंवार (सं. 4061052एल अब जेसी-529625ए),
23 मई 2004*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 4062926ए अब जेसी-529627एल),
12 मई 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) ब्रिज लाल (सं. 4063519के अब जेसी-
529626एच), 05 मई 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिये

हवलदार तारिक महमूद (सं. 9086964के अब जेसी-593220डब्ल्यू),
14 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार छत्तर सिंह (सं. 9087431एन अब जेसी-593221वाई),
22 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 18 मई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार ओमकार सिंह (सं. 9087087एन अब जेसी-593222एफ),
12 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 23 मई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है),

हवलदार अशोक कुमार (सं. 9086706के अब जेसी-593223के),
05 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 30 मई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार खजान चन्द (सं. 9086406एच अब जेसी-593224एम),
22 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

1 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार खीम बहादुर आले (सं. 5043789एन अब जेसी-602552के),
21 मई 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2004)

हवलदार नव राज श्रेष्ठ (सं. 5043152के अब जेसी-602553एम),
25 मार्च 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2004)

हवलदार राजन गुरूंग (सं. 5043087पी अब जेसी-602554पी),
01 जून 2004

हवलदार प्रेम बहादुर माचकोटी मगर (सं. 5043109एच अब
जेसी-602555एक्स), 01 जून 2004

हवलदार नारायण बहादुर थापा (सं. 5043198एच अब जेसी-
602556ए), 01 जून 2004

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार देव राज डोगरा (सं. 3981149एक्स अब जेसी-519876
डब्ल्यू), 15 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
01 अप्रैल 2004 से)

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 3982157एच अब जेसी-519877वाई),
29 अप्रैल 2004

हवलदार ऋषि कुमार (सं. 3981446एल अब जेसी-519878एफ),
02 मई 2004

हवलदार देश राज (सं. 3985119एक्स अब जेसी-519879के),
05 मई 2004

हवलदार नरेन्द्रा प्रकाश (सं. 3990244एल अब जेसी-519880वाई),
24 मई 2004

हवलदार राजीव सिंह (सं. 3981581वाई अब जेसी-519881एफ),
01 जून 2004

महारा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लिपिक अजय पाल सिंह (सं. 4552894एक्स अब जेसी-
569426पी), 14 जून 2004@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता 04 मई 2004)

हवलदार लिपिक गजे सिंह पनवर (सं. 4554396के अब जेसी-
569427एक्स), 01 जून 2004

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अब्दुल कवीम (सं. 2781214एम अब जेसी-459353एल),
26 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार भिऊगडे विठल मारुती (सं. 2774381ए अब जेसी-
459354एन), 02 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार सादले उत्तम गुंडा (सं. 2782547एल अब जेसी-
459355डब्ल्यू), 29 मई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार गुंजल बालु भगवंत (सं. 2782727एन अब जेसी-
459356वाई), 02 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाती है)

हवलदार दिवेकर हनुमान दशरथ (सं. 2785320एच अब जेसी-459357एफ), 26 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाती है)

हवलदार चंद्रकांत तुकाराम जाधव (सं. 2781786एन अब जेसी-459358के), 15 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार बेंडुगडे रमेश दिनकर (सं. 2784987एक्स अब जेसी-459359एम), 16 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार मुसाणे राजकुमार रामचंद्र (सं. 2778848एक्स अब जेसी-459360एफ), 25 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार मोरे प्रदीप भाऊराव (सं. 2785875के अब जेसी-459361के), 11 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार कराले बाबन महारु (सं. 2782365एक्स अब जेसी-459362एम), 14 मई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार दिलीप नाना शेडगे (सं. 2780941एक्स अब जेसी-459363पी), 14 मई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार गायकवाड भीमराव धोंडिबा (सं. 2783076एक्स अब जेसी-459364एक्स), 14 मई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार लाड सुधीर रामचंद्र (सं. 2785305एक्स अब जेसी-459365ए), 01 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार गणपती यमाजी तुलसकर (सं. 2779446एम अब जेसी-459366एच), 03 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार पाटील पांडुरंग तुकाराम (सं. 2784355एम अब जेसी-459367एल), 04 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार पाटील विठोबा रामु (सं. 2779377एफ अब जेसी-459368एन), 24 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार भोयटे सुधाकर माणिक (सं. 2779322एक्स अब जेसी-459369डब्ल्यू), 07 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार ए इस्माईल (सं. 2781000डब्ल्यू अब जेसी-459370एल), 09 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

हवलदार जगताप लक्ष्मण माणाजी (सं. 2780919एम अब जेसी-459371एन), 08 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार खेम राज (सं. 3982498एन अब जेसी-459372डब्ल्यू), 14 जुलाई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2004 से दी जाती है)

हवलदार मोरे रोहीदास मारुती (सं. 2785208डब्ल्यू अब जेसी-459376एम), 18 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक रामस्वार्थ चौधरी (सं. 2780905एम अब जेसी-459373वाई), 05 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक इरगोंडा मलगोंडा पाटील (सं. 2773921एफ अब जेसी-459374एफ), 04 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक इगले प्रभाकर गोंडुजी (सं. 2775503एल अब जेसी-459375के), 09 जून 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री
नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार कपूर चन्द (सं. 9087368के अब जेसी-593225पी),
19 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 23 मई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार केवल कृष्ण (सं. 9087084ए अब जेसी-593226एक्स),
19 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 23 मई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मौहम्मद नवाज हजाम, एस एम (सं. 9095693वाई अब जेसी-593227ए), 03 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार हंस राज (सं. 9087818डब्ल्यू अब जेसी-593228एच),
07 जून 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 16 मई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 9087477डब्ल्यू अब जेसी-593229एल),
03 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहिन्द्र प्रकाश (सं. 9087503एम अब जेसी-593230ए),
03 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार फरजंद हुसैन (सं. 9086848ए अब जेसी-593231एच),
19 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 25 जून 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अब्दुल मजीद (सं. 9086051एच अब जेसी-593232एल),
19 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार केवल सिंह (सं. 9086846डब्ल्यू अब जेसी-593233एन),
19 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

सिख रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 3385196पी अब जेसी-499436वाई),
20 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2004)

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 3384007एन अब जेसी-499437एन),
20 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2004)

हवलदार हरजीत सिंह (सं. 3387073एफ अब जेसी-499438के),
28 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 अप्रैल 2004)

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 3382190एच अब जेसी-499439एम),
21 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2004)

हवलदार लखबीर सिंह (सं. 3385929एच अब जेसी-499440एफ),
21 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
03 जून 2004)

हवलदार सुचा सिंह (सं. 3386261डब्ल्यू अब जेसी-499441के),
21 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
03 जून 2004)

हवलदार जसतेज सिंह (सं. 3388581के अब जेसी-499442एम),
18 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
18 जून 2004)

दि राजपूत रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार लिपिक राधे श्याम (सं. 2983843एम अब जेसी-479398एम), 01 जुलाई 2004

हवलदार लिपिक गंगेश्वर प्रसाद सिंह (सं. 2983853डब्ल्यू अब जेसी-479399पी), 01 जुलाई 2004

हवलदार लिपिक प्रभाकर सिंह (सं. 2983902एन अब जेसी-479400वाई), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2984777एफ अब जेसी-479401एफ)
26 अप्रैल 2004, ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार राम पाल सिंह (सं. 2980900एक्स अब जेसी-479402के)
03 मार्च 2004, ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार लीला राम (सं. 2983936एफ अब जेसी-479403एम)
22 मई 2004, ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 2981675ए अब जेसी-479404पी) 18 मई 2004

हवलदार लाखन सिंह (सं. 2979069एल अब जेसी-479405एक्स)
25 मई 2004

हवलदार बलवान सिंह (सं. 2978971ए अब जेसी-479406ए)
01 जून 2004

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 2979589डब्ल्यू अब जेसी-479407एच)
01 जून 2004

हवलदार मन बहादुर सिंह (सं. 2983090के अब जेसी-479408एल)
01 जून 2004

हवलदार समुन्द्र सिंह (सं. 2980058एल अब जेसी-479409एन)
01 जून 2004

हवलदार याद राम गुजर (सं. 2979516के अब जेसी-479410एच)
19 जून 2004, ज्येष्ठता 01 जून 2004 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार पहल सिंह (सं. 2980218ए अब जेसी-479411एल) 01 जून 2004

हवलदार अजय पाल सिंह (सं. 2982186ए अब जेसी-479412एन)
13 जून 2004

हवलदार सबल सिंह (सं. 2982905पी अब जेसी-479413डब्ल्यू)
01 जुलाई 2004

हवलदार चन्द्र पाल (सं. 2979826पी अब जेसी-479414वा)
01 जुलाई 2004

हवलदार लोकेन्द्र सिंह (सं. 2979575डब्ल्यू अब जेसी-479415एफ)
01 जुलाई 2004

हवलदार अमर सिंह ठाकुर (सं. 2979162एम अब जेसी-479416के)
01 जुलाई 2004

हवलदार कमलेश सिंह (सं. 2981812एन अब जेसी-479417एम)
01 जुलाई 2004

हवलदार दिलीप कुमार मंडल (सं. 2983153के अब जेसी-479418पी)
01 जुलाई 2004

हवलदार मदन सिंह (सं. 2977218पी अब जेसी-479419एक्स)
01 जुलाई 2004

हवलदार ओम प्रकाश शर्मा (सं. 2979026डब्ल्यू अब जेसी-479420एम) 01 जुलाई 2004

हवलदार राजेन्द्र सिंह राजपूत (सं. 2984805एच अब जेसी-479421पी)
01 जुलाई 2004

हवलदार भैर सिंह शेखावत (सं. 2984666के अब जेसी-479422एक्स) 01 जुलाई 2004

हवलदार राज नरायण सिंह (सं. 2985915के अब जेसी-479423ए)
01 जुलाई 2004

हवलदार हसी राम (सं. 2981036वाई अब जेसी-479424एच)
01 जुलाई 2004

हवलदार अजय सिंह पुंडीर (सं. 2980613एन अब जेसी-479425एल)
29 जुलाई 2004

हवलदार कन्हैया लाल गुजर (सं. 2981719एम अब जेसी-479426एन) 01 अगस्त 2004

दिवाकर
अवर सचिव

नियमित सेना
सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 21, दिनांक 9 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

सूबेदार (पी ए)

नायब सूबेदार रामनिवास राहर (जेसी-642216ए), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार राजकर्ण मिश्रा (जेसी-642239एफ), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-642240डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-642217एच), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार मनीन्द्रा चन्द्रा दास (जेसी-642009एन), 18 अप्रैल 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लत्तन यादव (जेसी-642242एफ), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार अशोक कुमार भूषण (जेसी-642243के), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार शिव कुमार शर्मा (जेसी-642246एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार तजेन्द्र सिंह चौहान (जेसी-642247ए), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार एस मुथु कृष्णन (जेसी-642249एल), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार अशीम कुमार दास (जेसी-642158एफ), 19 अप्रैल 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सितान्धु साहा (जेसी-642250ए), 01 मई 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद यादव (जेसी-642251एच), 01 मई 2004

नायब सूबेदार रामाचन्द्रन यू (जेसी-642253एन), 01 मई 2004

नायब सूबेदार गणेश चन्द्रा साहू (जेसी-642008एल), 01 अप्रैल 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 02 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

सूबेदार लिपिक (जी डी/एस डी)

नायब सूबेदार आनन्दन ए (जेसी-641845एल), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार घातक (जेसी-642115एम), 16 दिसम्बर 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार योगेन्द्र सिंह (जेसी-641857ए), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार सुरेन्द्रा सिंह बिष्ट (जेसी-641859एल), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार राम करीपाल सिंह (जेसी-641864डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार प्रभु प्रसाद सिंह (जेसी-641868एम), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार तरसीम लाल (जेसी-641871एम), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार कमलेश राम (जेसी-641872पी), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-641846एन), 29 मार्च 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रेम पाल सिंह (जेसी-641858एच), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार रसपाल सिंह मैहता (जेसी-642116पी), 29 मार्च 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रतीप कुमार सारंगी (जेसी-641861एच), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार सन्त कुमार चट्टोपाध्याय (जेसी-641865वाई), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार झुमर लाल (जेसी-641867के), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार पारखे नारायण आनन्दा (जेसी-641870के), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार श्री चन्द्रकान्ता कलीका प्रसाद पान्डे (जेसी-641873एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार शशी कुमार एम (जेसी-641874ए), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार गिरजा शंकर (जेसी-641869पी), 21 अप्रैल 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-641875एच), 01 मई 2004

नायब सूबेदार खडगा सिंह चौहान (जेसी-641970पी), 01 मई 2004

नायब सूबेदार विजय कुमार भाटिया (जेसी-641862एल), 21 अगस्त 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार तपश कुमार दत्ता (जेसी-641971एक्स), 04 जुलाई 2004 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बन्सी धर (जेसी-641972ए), 01 जुलाई 2004

आर. चतुर्वेदी
अवर सचिव

सं. 22, दिनांक 13 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना
सेना शिक्षा कोर
सूबेदार मेजर के रैंक में

पीए सूबेदार मेजर बालेश्वर सिंह यादव (जेसी-211935के), 01 मई 2004

पीए सूबेदार मेजर चिंतपलिल वेंकट शेण्यय (जेसी-211977डब्ल्यू), 26 जुलाई 2004*

×(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

पीए सूबेदार मेजर प्रभात कुमार पण्डित (जेसी-211940पी), 01 अगस्त 2004

पीए सूबेदार मेजर बाबाजी चरण नायक (जेसी-213341एन), 06 सितम्बर 2004--

-(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विजेन्द्र कुमार (सं. 9509576पी अब जेसी-803613एम), 09 मई 2004*

हवलदार सुरेश चन्दर (सं. 9509578ए अब जेसी-803615एक्स), 11 मई 2004*

हवलदार सुनील कुमार तोमर (सं. 9509585डब्ल्यू अब जेसी-803619एन), 28 जून 2004*

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम सिंह तेकाम (सं. 9509618डब्ल्यू अब जेसी-803634एच), 28 जून 2004:

हवलदार जगत सिंह रावत (सं. 9509620एन अब जेसी-803635एल), 01 जून 2004

हवलदार सुधीश सिंह गंगवार (सं. 9509634एन अब जेसी-803642एफ), 01 जून 2004

हवलदार विनोद कुमार सिंह (सं. 9509640एफ अब जेसी-803644एम), 19 जून 2004:

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बीरेन्द्र सिंह (सं. 9509644एक्स अब जेसी-803648एच), 01 जुलाई 2004

हवलदार ब्रह्म शंकर तिवारी (सं. 9509646एच अब जेसी-803649एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार केदार नाथ तिवारी (सं. 9509648एन अब जेसी-803650ए), 01 जुलाई 2004

हवलदार सुभाष चन्द्र यादव (सं. 9509650एल अब जेसी-803651एच), 01 जुलाई 2004

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 9509654एफ अब जेसी-803652एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार गोपाल त्रिपाठी (सं. 9509657पी अब जेसी-803653एन), 01 जुलाई 2004

हवलदार सोनीत सिंह (सं. 9509685एफ अब जेसी-803654डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

हवलदार विजय कुमार (सं. 9509686के अब जेसी-803655वाई), 01 जुलाई 2004

हवलदार शत्रुघ्न पंडा (सं. 9509688पी अब जेसी-803656एफ), 01 जुलाई 2004

हवलदार पी धंगराज (सं. 9509690एम अब जेसी-803657के), 01 अगस्त 2004

हवलदार पंकज कुमार (सं. 9509695एल अब जेसी-803658एम), 02 अगस्त 2004-

हवलदार धर्म पाल (सं. 9509698वाई अब जेसी-803659पी), 01 अगस्त 2004

हवलदार इन्द्रेव सिंह (सं. 9509699एफ अब जेसी-803660के), 01 अगस्त 2004

हवलदार पून चन्द्र चौबे (सं. 9509702डब्ल्यू अब जेसी-803661एम), 01 अगस्त 2004

हवलदार अनिल कुमार (सं. 9509710पी अब जेसी-803662पी), 02 अगस्त 2004-

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

हवलदार अंजनी कुमार सिन्हा (सं. 9509711एक्स अब जेसी-803663एक्स), 01 सितम्बर 2004

हवलदार दीवान सिंह मेहरा (सं. 9509712ए अब जेसी-803664ए), 01 सितम्बर 2004

हवलदार समुन्दर सिंह (सं. 9509714एल अब जेसी-803665एच), 04 सितम्बर 2004''

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 9509716डब्ल्यू अब जेसी-803666एल), 02 सितम्बर 2004''

हवलदार विजय कुमार डबास (सं. 9509717वाई अब जेसी-803667एन), 01 सितम्बर 2004

हवलदार मदन मोहन (सं. 9509719के अब जेसी-803668डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

हवलदार जसकरन सिंह (सं. 9509720वाई अब जेसी-803669वाई), 01 सितम्बर 2004

हवलदार शिशुपाल सिंह (सं. 9509722के अब जेसी-803670एन), 01 सितम्बर 2004

''(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

विजय कपूर
अवर सचिव

विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग कोर

सं. 23, दिनांक 10 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, श्री बी. वाय. हि. कृष्णा राव, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 को दिनांक 05 जनवरी 2004 (पूर्वाह्न) से ई.एम.ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में चीफ ड्राफ्ट्समैन के स्तर पर पदोन्नत करते हैं।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे।

राष्ट्रपति, श्री जी. पद्मानाभन, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 को दिनांक 19 मार्च 2004 से ई.एम.ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में चीफ ड्राफ्ट्समैन के स्तर पर पदोन्नत करते हैं।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे।

राष्ट्रपति, श्री मुरली राम, कार्यालय अधीक्षक को दिनांक 28 जनवरी 2004 (अपराह्न) से ई.एम.ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में ई.एम.ई. आफिसर (सिविलियन) के स्तर पर पदोन्नत करते हैं।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे।

राष्ट्रपति, श्री तुकाराम सावले राम लोहकारे, कार्यालय अधीक्षक को दिनांक 23 फरवरी 2004 (पूर्वाह्न) से ई.एम.ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में ई.एम.ई. आफिसर (सिविलियन) के स्तर पर पदोन्नत करते हैं।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे।

एन. के. कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 24, दिनांक 13 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कवचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार जनक सिंह (सं. 1075582एच अब जेसी-240741के), 19 जुलाई 2004*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 2004 से दी जाती है)

दफादार ब्रज नाथ सिंह (सं. 1067092ए अब जेसी-240747एल), 10 अगस्त 2004*

- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)
- दफादार राम सिंह (सं. 1069425ए अब जेसी-240749डब्ल्यू), 09 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)
- दफादार शंकर राम विश्नोई (सं. 1071451ए अब जेसी-240751एन), 02 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)
- दफादार बलविन्दर सिंह (सं. 1078418एल अब जेसी-240754एफ), 30 जुलाई 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)
- दफादार सुल्तान सिंह (सं. 1075064एच अब जेसी-240755के), 21 जुलाई 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)
- दफादार मुरलीधरन जी (सं. 1067766एम अब जेसी-240758एक्स), 03 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)
- दफादार एस ए अलगर (सं. 1068061एम अब जेसी-240759ए), 03 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)
- दफादार नरिन्दर सिंह (सं. 1070965एल अब जेसी-240760पी), 02 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)
- दफादार हवा सिंह (सं. 1074610एक्स अब जेसी-240762ए), 10 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)
- दफादार प्रमोद कुमार सिंघा (सं. 1068535एच अब जेसी-240763एच), 01 अगस्त 2004
- दफादार गंगाप्पा बुदिगोप्पा (सं. 1067059एच अब जेसी-240764एल), 01 अगस्त 2004
- दफादार सुबिश कुमार त्यागी (सं. 1066996एन अब जेसी-240765एन), 01 अगस्त 2004
- दफादार वसन्त (सं. 1066271एन अब जेसी-240767वाई), 01 अगस्त 2004
- दफादार अचला राम (सं. 1072412एन अब जेसी-240768एफ), 09 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)
- दफादार सुखदेव सिंह (सं. 1067630एच अब जेसी-240769के), 02 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)
- दफादार जगवीर सिंह पुनिया (सं. 1068018एल अब जेसी-240770वाई), 02 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)
- दफादार हरदेव सिंह (सं. 1070433एल अब जेसी-240771एफ), 10 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)
- दफादार गुरभीत सिंह (सं. 1078634वाई अब जेसी-240772के), 01 अगस्त 2004
- दफादार दर्शन सिंह (सं. 1078912एफ अब जेसी-240773एम), 01 अगस्त 2004
- दफादार बलबीर सिंह (सं. 1064878एफ अब जेसी-240784वाई), 05 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)
- दफादार राकेश सिंह कुशवाह (सं. 1066210डब्ल्यू अब जेसी-240786के), 07 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)
- दफादार अत्तादा माधवा राव (सं. 1074292वाई अब जेसी-240787एम), 13 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)
- दफादार जी मुनु सामी (सं. 1066721ए अब जेसी-240788पी), 03 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)
- दफादार जी जी कृष्णा मुर्ती (सं. 1073990पी अब जेसी-240789एक्स), 02 अगस्त 2004 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार विष्णु मसिह (सं. 1066020के अब जेसी-240790एन),
06 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार सुंदर सिंह (सं. 1067277एफ अब जेसी-240791पी),
05 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार वीर सिंह (सं. 1071509एम अब जेसी-240792एक्स),
09 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार उपेन्द्रन वी (सं. 1072213ए अब जेसी-240793ए),
09 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार (सं. 1066544एल अब जेसी-240794एच),
09 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार घन श्याम दास यादव (सं. 1083947एफ अब
जेसी-240803वाई), 04 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार गदाधरे अर्जुन बलमीम (सं. 1073935वाई अब
जेसी-240805के), 13 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार अजीत सैकिया (सं. 1070890वाई अब जेसी-240807पी),
13 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार वामन (सं. 1075655के अब जेसी-240808एक्स), 13 अगस्त
2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार दुनन सिंह (सं. 1065042डब्ल्यू अब जेसी-240810पी),
07 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार जगदीश सिंह पुनिया (सं. 1068935पी अब
जेसी-240811एक्स), 07 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार राजेश सिंह (सं. 1075469एन अब जेसी-240813एच),
16 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार भागीरथ शर्मा (सं. 1067473एफ अब जेसी-240815एन),
03 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार बसवीर सिंह (सं. 1069073एन अब जेसी-240818डब्ल्यू),
09 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार प्रभु राम नायक (सं. 1066796एक्स अब जेसी-240818एफ),
11 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप सिंह (सं. 1072600पी अब जेसी-240819के),
13 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार काले सुभाष दासराव (सं. 1073129एम अब
जेसी-240820वाई), 13 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार एम रवी (सं. 1066868डब्ल्यू अब जेसी-240821एफ),
03 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार मधु वी सी (सं. 1075197वाई अब जेसी-240824पी),
02 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार जस पाल सिंह (सं. 1078728डब्ल्यू अब जेसी-240825एक्स),
04 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार चन्द्र भान यादवा (सं. 1075624के अब जेसी-240827एच),
04 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार सत्यपाल सिंह (सं. 1072388एच अब जेसी-240831एल),
09 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार बिजन कान्ती सेन (सं. 1067966एच अब जेसी-240832एन),
03 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार एम रवीन्द्रन (सं. 1068250डब्ल्यू अब जेसी-240833डब्ल्यू),
03 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार श्री नारायण मिश्रा (सं. 1072849एफ अब जेसी-240837एम),
14 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार राकेश पाल सिंह (सं. 1071811एल अब जेसी-240838पी),
14 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार सुंदर लाल (सं. 1072859एल अब जेसी-240839एक्स),
14 अगस्त 2004 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

दफादार बलजीत सिंह (सं. 1078790एच अब जेसी-240842एक्स),
01 अगस्त 2004

स्थायी रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार राम दयाल (जेसी-237668एल), 27 जुलाई 2003 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हीर सिंह (जेसी-238415एच), 26 जुलाई 2003 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सतबीर सिंह (जेसी-238778एम), 12 अगस्त 2003 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जुलाई 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भानु प्रताप सिंह (जेसी-238135पी), 25 अगस्त 2003 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ओम प्रकाश (जेसी-239276डब्ल्यू), 19 अक्टूबर 2003 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रमेश कुमार (जेसी-239684एल), 31 जनवरी 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बजरंग सिंह (जेसी-239713एल), 27 फरवरी 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रमोद प्रसाद सिंह (जेसी-238401एच), 12 मार्च 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दल राम चौधरी (जेसी-238423एफ), 01 नवम्बर 2003

नायब रिसालदार शम्भु नाथ यादव (जेसी-238378ए), 06 दिसम्बर 2003 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नारायण एच एम (जेसी-239432पी), 02 दिसम्बर 2003 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गौसक हद्दार सनादी (जेसी-239204एम), 10 जनवरी 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भागीरथ महतो (जेसी-239461के), 01 दिसम्बर 2003

नायब रिसालदार हरी सिंह (जेसी-239124पी), 01 दिसम्बर 2003

नायब रिसालदार शिव पाल सिंह (जेसी-239127एच), 22 जनवरी 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ओम प्रकाश (जेसी-239573के), 12 जनवरी 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार त्रिवेणी प्रसाद पटेल (जेसी-238063डब्ल्यू), 11 फरवरी 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरेश चन्द (जेसी-239206एक्स), 03 फरवरी 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मदन लाल (जेसी-238332एक्स), 03 फरवरी 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गिरधरी सिंह (जेसी-239136के), 02 अप्रैल 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुल्तान सिंह (जेसी-238498वाई), 01 मार्च 2004

नायब रिसालदार राम गोपाल सिंह (जेसी-238251एक्स), 03 मार्च 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भुवन सी एच बोरा (जेसी-238803ए), 01 मार्च 2004

नायब रिसालदार कल्याण सिंह (जेसी-238487एम), 01 मार्च 2004

नायब रिसालदार अनिल कुमार (जेसी-238041एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब रिसालदार शाजी के (जेसी-238888एफ), 24 जुलाई 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार उमेश चन्द्र (जेसी-239534एल), 06 अप्रैल 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-239213एन), 02 अप्रैल 2004 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

जोस थोमस
अवर सचिव

सं. 25, दिनांक 15 दिसम्बर 2004—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम सी अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

जे एस संधु (एमआर-06024ए), एएमसी, 01 दिसम्बर 2003

एम एस गिल (एमआर-06028डब्ल्यू), एएमसी, 01 दिसम्बर 2003

एस सांधी (एमआर-06050एफ), एएमसी, 01 दिसम्बर 2003

एम एस देओरा (एमआर-06167ए), एएमसी, 12 जून 2004

एस एस मुथु (एमआर-06612एन), एएमसी, 01 सितम्बर 2004

पंकज कुमार (एमआर-06721ए), एएमसी, 16 अगस्त 2002

एम गुप्ता (एमआर-06150एम), एएमसी, 12 जून 2004

कैप्टन से मेजर के पद पर

करूनेश चन्द (एमआर-07238एच), एएमसी, 05 फरवरी 2004

सुमित अरोड़ा (एमआर-07284एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2004

बी दत्त (एमआर-07354एल), एएमसी, 24 जून 2004

रवि कान्त नारायण (एमआर-07360वाई), एएमसी, 27 जून 2004

नितिन बजाज (एमआर-07256एल), एएमसी, 05 फरवरी 2004

अमिना फरहत (एमआर-07691ए), एएमसी, 10 जुलाई 2003

सर्जन लेफ्टि कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

ए एस मान (एमआर-06717एक्स), (75507), एएमसी, 18 मई 2004

जैड ए शमीम (एमआर-06719एच), (75502), एएमसी, 16 अगस्त 2004

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर

वाई टी राव (एमआर-07283पी), (75688), एएमसी, 05 फरवरी 2004

एम श्रीवास्तावा

मेजर जनरल

एडी. डीजीएफएमएस

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 26, दिनांक 14 दिसम्बर 2004—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

पी एक्स ई, बालासोर के वैज्ञानिकों को दर्शाए गए अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2004 पूर्वाह्न से।

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
सर्वश्री			रूपये
जी सी दास	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	18400-500-22400
पी के दास गुप्ता	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	14300-400-18300
टी के बिसवाल	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	14300-400-18300
एस नन्दि	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	12000-375-16500

एल.आर.डी.ई., बेंगलोर के वैज्ञानिकों को दर्शाए गए अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से।

नम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	वेतनमान
रुपये			
श्री रामचन्द्रा कुलूर	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	18400-500-22400
डॉ. डी.सी. पांडे	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	-उपरोक्त-
श्री यू.सी. होला	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	16400-450-20000
श्रीमती एस. उमा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्री गोपी सुधा प्रसाद	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्री पी. कुरियन वर्गीज	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्री समीर दास	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्री के. आर. नारायण स्वामी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्री ए. बालाजी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्रीमती तनुजा विजयकुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्री एस.एस. नागाराज	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्री एस.एम. नागाराज	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	14300-400-18300
श्री सी.एच. श्रीनिवासा राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-उपरोक्त-
श्रीमती के.एस. बीनामोले	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	12000-375-16500
श्री सुचित्रा राजागोपाल	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-उपरोक्त-
श्री एस.डी. सुरेश	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'डी'	-उपरोक्त-
श्रीमती मधु मिश्रा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-उपरोक्त-

एच.ई.एम.आर.एल., पुणे के वैज्ञानिकों को दर्शाए गए अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2004 पूर्वाह्न से।

नम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
रुपये			
डॉ. बी.आर. गांधे	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	18400-500-22400
श्री के.के. साहा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	16400-450-20000
श्री पल्लव रॉय	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
श्री आर.के. पाण्डे	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
डॉ. पी.आर. आर्या	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	14300-400-18300
डॉ. (श्रीमती) निर्मला सिकंदर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
श्री सिवेश चन्द्र भट्टाचार्य	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
श्री जी.एम. गोरे	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	14300-400-18300
डॉ. जी.सी. गांधी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
श्री डी.के. दास	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	-वही-
श्री आर.एच. ब्रह्म पट्ट	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	12000-375-16500
श्री एम.ए. कुलकर्णी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
श्री एस.एम. पाण्डे	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
श्री एस.जी. सुन्दरम	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-
श्री अश्विनी कन्न	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-

डी आर डी ई, ग्वालियर के वैज्ञानिकों को दर्शाए गए अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2004 पूर्वाह्न से।

नम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
रुपये			
डॉ. हर्ष वर्धन बात्रा	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	18400-500-22400
डॉ. बीर सिंह	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	16400-450-20000
डॉ. एस.जे.एस. फ्लोर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-वही-
डॉ. जी.एस. अग्रवाल	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	14300-400-18300
श्री बिधान चन्द्र बाग	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	12000-375-16500
डॉ. ए.के. गुप्ता	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-वही-

एम टी आर डी सी, बंगलोर के वैज्ञानिकों को दर्शाए गए अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2004 पूर्वाह्न से।

नम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
रुपये			
डॉ. के. सीतारामा भाट	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	16400-450-20000
डॉ. सुधीर कामथ	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्री एस. उमा महेश्वरा रेड्डी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	-उपरोक्त-
श्री आर.शेषाद्री	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	14300-400-18300
श्री बी. नाल्लासामी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	12000-375-16500
श्री बी. जोगी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	-उपरोक्त-

भारतीय दूतावास, मास्को में जब श्री ए.पी. रेगू कुमार वैज्ञानिक 'डी' सहायक तकनीकी सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, उनको वैज्ञानिक 'ई' के रूप में उसी पद पर और उसी दूतावास में 01 जुलाई 1999 (पूर्वाह्न) से रु. 14300-400-18300 वेतनमान पर।

राष्ट्रपति एल.आर.डी.ई., बंगलोर के श्री एम. शेख अल्थाफ, वैज्ञानिक डी, की सहर्ष पदोन्नति अगले ग्रेड वैज्ञानिक ई के रूप में उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2003 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 14300-400-18300 पर करते हैं।

राष्ट्रपति आर.सी.एम.ए., कानपुर के श्री अमरजीत दास, वैज्ञानिक डी, की सहर्ष पदोन्नति अगले ग्रेड वैज्ञानिक ई के रूप में उसी स्थापना में दिनांक 01 जुलाई 2003 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 14300-400-18300 पर करते हैं।

श्री आर.डब्ल्यू. नागरकर, वैज्ञानिक सी, एच.ई.एम.आर.एल., पुणे को वैज्ञानिक डी के रूप में उसी स्थापना में दिनांक 05 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 12000-375-16500 पर।

श्रीमती सुमती शर्मा, वैज्ञानिक सी, को रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र, दिल्ली में वैज्ञानिक डी के रूप में दिनांक 01 जुलाई 2000 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 12000-375-16500 पर।

जे.के. खडवाल
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 27, दिनांक 13 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित अधिकारियों को कमीशन त्यागने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना
त्यागपत्र

टी.ए. सं.	रैंक व नाम	दिनांक
टी.ए. सं. 42445	लै. नागेन्द्र सिंह राठौर इन्फैन्ट्री	06 सितम्बर 2003
टी.ए. सं. 42224	लै. रवीन्द्र प्रताप विचारे इन्फैन्ट्री	02 अगस्त 2004
टी.ए. सं. 42451	लै. रोहित शर्मा इन्फैन्ट्री	01 मार्च 2003
टी.ए. सं. 42367	लै. उन्नत शर्मा इन्फैन्ट्री	21 सितम्बर 2004

एम एल शर्मा
अवर सचिव

थल सेना विभाग
शुद्धि पत्र

सं. 28, दिनांक 10 दिसम्बर 2004--भारत के राजपत्र सं. 25, दिनांक 19 जून 2004 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 294, दिनांक 26 मई 2004 (भाग 1 अनुभाग 4) शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक रक्षा तथा सुरक्षा कोर, नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में :--

के स्थान पर--हवलदार बिमल कुमार दास (10273666एच अब जे सी-8415576एन), 12 जनवरी 2004

पढ़ा जाय--हवलदार विमल कुमार दास (10273666एच अब जे सी-841576एन), 12 जनवरी 2004

टी. के. एम. पिल्लै
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 08th January 2005

No. 14, dated the 09th December 2004.—The President is pleased to appoint Smt. Sheela Bhide, an officer of the Indian Administrative Service (AP-73), as Financial Adviser (Acquisition) and Member, Defence Procurement Board and Additional Secretary in the Finance Division of Ministry of Defence with effect from the forenoon of 01st November 2004.

The President is pleased to appoint Shri R. D. Gupta, CSS as Assistant Financial Adviser (Under Secretary) in the Finance Division of the Ministry of Defence with effect from the forenoon of the 18th October 2004, until further orders.

M. C. LUTHER
Dy. Financial Adviser (E)

(ARMY BRANCH)

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERING

No. 15, dated the 10th December 2004.—The President is pleased to appoint Col UK Mitra (Retired) as Senior Workshop Officer (Now Executive Engineer) in the Corps of EME under Ministry of Defence on re-employment basis with effect from 16 Feb 2004 (Forenoon).

N. K. KASHMIRA
Under Secy.

No. 16, dated the 15th December 2004.—The President is pleased to make the following appointment (Direct Permanent Commission) under AI 37/78 as amended vide AI 11/02:—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)

To be Lt (On Probation)

Rahul Rai (DR-10577N), 20 Aug 2004

PARAMJIT SINGH
Maj Gen
Addl DGDS

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 17, dated the 14th December 2004.—The President is pleased to make the following appointment:—

Smt. N. Sree Lakshmi to be temporary Scientist 'D', on probation for one year in DLRL, Hyderabad w.e.f. 28.8.2002 (F/N) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500.

Smt. V Sarala to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in LRDE, Bangalore with effect from 28 Aug 2002 (F/N) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500.

Shri Narender Kumar to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in CAIR, Bangalore with effect from 13 Jan 2003 (F/N) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500.

JK KHADWAL
Jt. Director (Pers)

NATIONAL CADET CORPS

No. 18, dated the 15th December 2004.—The undermentioned is granted the honorary rank of Captain-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Naval Staff:—

Admiral Arun Prakash, Chief of the Naval Staff, Naval Headquarters, New Delhi-110011—PVSM, AVSM, VrC, VSM, ADC—31 Jul 2004

JATINDER SINGH
Brig
Dy. Dir. Gen (MS)

ARMY BRANCH

No. 19, dated the 10th December 2004.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CROPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Sub Maj Sreedharan KM (JC-158511K), Formerly Arty—03 May 2003

Sub Maj Megh Bahadur Gurung (JC-164848H), Formerly JAK Rif—04 May 2003

Sub Maj Bhaskaran Nambiar Kuzhukunnon Othayoth (JC-141605L), Formerly ARMD—12 Jul 2003

Sub Maj Takhat Singh (JC-171069H), Formerly Arty—02 Jan 2004

Sub Maj Yash Paul Singh (JC-182622A), Formerly Bengal Engr Group—03 Jan 2004

In the rank of Subedar (GD)

Sub Ami Chand (JC-224477X), Formerly JAK Rif—02 May 2003

Sub Santokh Singh (JC-216734P), Formerly Guards—03 May 2003

Sub Sunil Kumar Gurung (JC-205718X), Formerly JAK Rif—03 May 2003

Sub Manbar Singh (JC-528057N), Formerly Garh Rif—03 May 2003

Sub Shyam Singh (JC-178320W), Formerly JAK Rif—05 May 2003

Sub Kuldeep Singh (JC-203856A), Formerly JAK LI—11 May 2003

Sub Amrit Kumar Pun (JC-208247A), Formerly 58 GR—12 Jul 2003

Sub Prasad Lama (JC-219816H), Formerly 58 GR—02 Jan 2004

Sub Balbir Singh Chib (JC-592081L), Formerly JAK LI—02 Jan 2004

Sub Bharat Singh (JC-174349F), Formerly EME—02 Jan 2004

Sub Jagbir Singh (JC-448073X), Formerly Grenadiers—02 Jan 2004

Sub Bhoj Bahadur Gurung (JC-183554K), Formerly 58 GR—02 Jan 2004

In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar Chok Bahadur (JC-578162A), Formerly JAK Rif—04 Jan 2003

Naib Subedar Udaivir Singh (JC-841507X) (146179A), Formerly Navy—12 Jul 2003

Naib Subedar Om Prakash Verma (JC-368081H), Formerly Signals—16 Jul 2003

T. K. M. PILLAI
Under Secy.

No. 20, dated the 13th December 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ramaling Sali (No. 2588069Y now JC-439405P), 19 Mar 2004

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Narayanan K (No. 2588441L now JC-439334Y), 01 Oct 2003

Hav (Clk) Jagadish Chandra (No. 2588447M now JC-439393L), 01 May 2004

Hav (Clk) Virendra Singh (No. 2588494K now JC-439398K), 01 Jun 2004

Hav (Clk) Shubh Narain Chaudhary (No. 2588613P now JC-439408H), 01 Jul 2004

To be Nb Sub

Hav Moses Selvaraj T (No. 2587671M now JC-439389H), 19 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Mar 2004 without effect on pay and allces)

Hav Narayanan MP (No. 2585515K now JC-439391A), 01 May 2004

Hav Ramanan G (No. 2590827K now JC-439397F), 01 May 2004

Hav I Madalai Muthuraju (No. 2584344W now JC-439402F), 05 May 2004

Hav Kumar KS (No. 2586437K now JC-439403K), 10 May 2004

Hav Gnanasekar S (No. 2591787A now JC-439414W), 11 May 2004

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Kailash Chand, Jat SM (No. 13615048H now JC-412857W), 08 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sish Pal (No. 13615531M now JC-412858W), 17 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Mukh Ram Gurjar (No. 13615298K now JC-412860N), 01 Dec 2003

Hav Ranjit Singh, SM (No. 2476645W now JC-412861W), 01 Mar 2004

Hav Ganga Ram (No. 3982535W now JC-412862Y), 01 Mar 2004

Hav Milap Chand (No. 13614950X now JC-412863F), 01 Mar 2004

Hav Onkar Dev Sharma (No. 13750357Y now JC-412864K), 01 Mar 2004

Hav Sansar Chand (No. 3983711P now JC-412865M), 01 Mar 2004

Hav Devraj (No. 13615074K now JC-412866P), 22 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Anand Singh (No. 13615373H now JC-412867X), 22 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sujan Singh (No. 13615488W now JC-412868A), 10 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rajbir Singh (No. 13615539Y now JC-412869H), 02 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Padmeswar Gogoi (No. 13616527W now JC-412870X), 01 Jun 2004

Hav Bhanwar Ram Dhearu (No. 13614425F now JC-412871A), 09 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Chander Pal Singh (No. 13614539M now JC-412872H), 01 Apr 2004

Hav Deepak Kumar (No. 13615035M now JC-412873L), 10 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Badri Prasad (No. 13615174P now JC-412874N), 01 Apr 2004

Hav Vijai Singh (No. 13615234X now JC-412875W), 10 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sis Ram (No. 13615347M now JC-412876Y), 22 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Vinod Bahadur Singh (No. 13615402M now JC-412877F), 10 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Arjun Singh Rathore (No. 13615407Y now JC-412878K), 10 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagadish Singh (No. 3179995L now JC-412879M), 01 Jun 2004

Hav Sasidharan Nair S (No. 13615492Y now JC-412880F), 01 Jun 2004

Hav Kambale Mohan Tukaram (No. 13615734W now JC-412881K), 01 Jun 2004

Hav Thomas Mathew (No. 13616439A now JC-412882M), 01 Jun 2004

Hav Abraham David (No. 13617402L now JC-412883P), 01 Jun 2004

Hav Sasi Kumar T (No. 13617419Y now JC-412884X), 01 Jun 2004

Hav Arekar Pandurang Shankar (No. 13617591A now JC-412885A), 01 Jun 2004

Hav Bijay Kumar Mishra (No. 13617710L now JC-412886H), 01 Jun 2004

To be Nb Sub Clk

Hav (Clk) Dharam Singh (No. 13614278K now JC-412859Y), 01 Mar 2004

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Shingara Singh (No. 3385160W now JC-499416L), 24 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kashmir Singh (No. 3386631L now JC-499417N), 25 May 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Tehal Singh (No. 3387109P now JC-499418W), 18 May 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lakhwinder Singh (No. 3387133L now JC-499419Y), 18 May 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhwinder Singh (No. 3386439F now JC-499420N), 26 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagwinder Singh (No. 3386214Y now JC-499421W), 21 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 23 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Tarlochan Singh (No. 3384912H now JC-499422Y), 25 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bachiter Singh (No. 3385140H now JC-499423F), 28 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Kulwant Raj (No. 3981456P now JC-519870P), 25 Apr 2004

Hav Udham Singh (No. 3982254A now JC-519871X), 02 May 2004

Hav Surinder Singh (No. 3982598Y now JC-519872A), 03 May 2004

Hav Shiv Kumar (No. 3981493H now JC-519873H), 20 May 2004

Hav Dev Raj (No. 3982523F now JC-519874L), 01 Jun 2004

Hav Sita Ram (No. 3982617Y now JC-519875N), 22 Jun 2004

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Karambir (No. 3175450W now JC-489503L), 03 Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Indrapal Singh Teotia (No. 3175798L now JC-489504N), 01 Jan 2004

Hav Vijay Singh (No. 3177315F now JC-489505W), 01 Apr 2004

Hav Rajbir (No. 3175560L now JC-489506Y), 01 Jun 2004

Hav Purkha Ram (No. 3177594X now JC-489507F), 01 Jul 2004

Hav Bhiki Singh (No. 3177827N now JC-489508K), 01 Jul 2004

Hav Rajesh Kumar (No. 3186732P now JC-489509M), 04 Jul 2004

Hav Radha Kishan (No. 3174193X now JC-489510F), 25 Jul 2004

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Jaswant Singh (No. 3385918W now JC-499424K), 17 Mar 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Gurmail Singh (No. 3386585F now JC-499425M), 28 May 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Gurmit Singh (No. 3386443K now JC-499426P), 26 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Gurnam Singh (No. 3384885K now JC-499427X), 27 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 May 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Jaswant Singh (No. 3384913L now JC-499428A), 16 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Sukhvinder Singh (No. 3384178A now JC-499429H), 16 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Avtar Singh (No. 3384857X now JC-499430X), 16 Jun 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Gurbaksh Singh (No. 3385953Y now JC-499431A), 13 Jul 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Dalwinder Singh, SM (No. 3389631W now JC-499432H), 15 Jul 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jun 2004 without effect on pay & allowances).

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Digpal Singh (No. 4059763M now JC-529617F), 23 May 2004/18 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Dec 2003 without effect on pay & allowances).

Hav Balam Singh (No. 4064553W now JC-529618K), 01 Feb 2004

Hav Kishor Kumar (No. 4065813H now JC-529619M), 01 Feb 2004

Hav Rabindra Singh (No. 4062472X now JC-529620F), 01 Feb 2004

Hav Prem Singh (No. 4062677M now JC-529621K), 09 Feb 2004

Hav Vishal Mani (No. 4063013L now JC-529622H), 21 Mar 2004

Hav Chander Singh (No. 4061714H now JC-529623P), 21 Mar 2004

Hav Prabhu Dayal (No. 4061818K now JC-529624X), 21 Mar 2004

Hav Sardar Singh Panwar (No. 4061052L now JC-529625A), 23 May 2004/25 Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Mar 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Dalbir Singh (No. 4062926A now JC-529627L), 12 May 2004/01 Apr 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Brij Lal (No. 4063519K now JC-529626H), 05 May 2004/01 Apr 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay & allowances).

JAK LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Tariq Mehmood (No. 9086964K now JC-593220W), 14 Jun 2004

Hav Chhatar Singh (No. 9087431N now JC-593221Y), 22 Jun 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 May 2004).

Hav Omkar Singh (No. 9087087N now JC-593222F), 12 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 May 2004).

Hav Ashok Kumar (No. 9086706K now JC-593223K), 05 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 May 2004).

Hav Khazan Chand (No. 9086406H now JC-593224M), 22 Jun 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004).

1 GR

To be Nb Sub

Hav Khim Bahadur Ale (No. 5043789N now JC-602552K), 21 May 2004*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Feb 2004).

Hav Nava Raj Shrestha (No. 5043152K now JC-602553M), 25 Mar 2004*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Feb 2004).

Hav Rajen Gurung (No. 5043087P now JC-602554P), 01 Jun 2004

Hav Prem Bahadur Machkoti Magar (No. 5043109H now JC-602555X), 01 Jun 2004

Hav Narayan Bahadur Thapa (No. 5043198H now JC-602556A), 01 Jun 2004

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Dev Raj Dogra (No. 3981149X now JC-519876W), 15 Jun 2004+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Balbir Singh (No. 3982157H now JC-519877Y), 29 Apr 2004

Hav Rishi Kumar (No. 3981446L now JC-519878F), 02 May 2004

Hav Des Raj (No. 3985119X now JC-519879K), 05 May 2004

Hav Narendra Prakash (No. 3990244L now JC-519880Y), 24 May 2004

Hav Rajiv Singh (No. 3981581Y now JC-519881F), 01 Jun 2004

THE MAHAR REGIMENT

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav Clk (GD) Ajaya Pal Singh (No. 4552894X now JC-569426P), 14 Jun 2004@

@(Granted seniority in the rank of Naib Sub wef 04 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Clk (GD) Gajey Singh Panwar (No. 4554396K now JC-569427X), 01 Jun 2004

THE MARATHA LI

To be Naib Sub

Hav Abdul Queem (No. 2781214M now JC-459353L), 26 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bhiungade Vithal Maruti (No. 2774381A now JC-459354N), 02 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sadale Uttam Gunda (No. 2782547L now JC-459355W), 29 May 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gunjal Balu Bhagwanta (No. 2782727N now JC-459356Y), 02 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Divekar Hanuman Dasharath (No. 2785320H now JC-459357F), 26 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Chandrakant Tukaram Jadhav (No. 2781786N now JC-459358K), 15 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bendugade Ramesh Dinkar (No. 2784987X now JC-459359M), 16 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Musane Rajkumar Ramchandra (No. 2778848X now JC-459360F), 25 Apr 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav More Pradeep Bhaurao (No. 2785875K now JC-459361K), 11 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Karale Baban Maharu (No. 2782365X now JC-459362M), 14 May 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dilip Nana Shedge (No. 2780941X now JC-459363P), 14 May 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gayakwad Bhimrao Dhondiba (No. 2783076X now JC-459364X), 14 May 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lad Sudhir Ramchandra (No. 2785305X now JC-459365A), 01 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ganpati Yamaji Tulaskar (No. 2779446M now JC-459366H), 03 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Pandurang Tukaram (No. 2784355M now JC-459367L), 04 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Vithoba Ramu (No. 2779377F now JC-459368N), 24 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bhoite Sudhakar Manik (No. 2779322X now JC-459369W), 07 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav A Ismail (No. 2781000W now JC-459370L), 09 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagtap Laxman Manaji (No. 2780919M now JC-459371N), 08 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Khem Raj (No. 3982498N now JC-459372W), 14 Jul 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 May 2004 without effect on pay and allowances).

Hav More Rohidas Maruti (No. 2785208W now JC-459376M), 18 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav (Clk) Ramswarth Choudhary (No. 2780905M now JC-459373Y), 05 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Iragonda Malagonda Patil (No. 2773921F now JC-459374F), 04 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Ingle Prabhakar Gonduji (No. 2775503L now JC-459375K), 09 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

JAK LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Kapoor Chand (No. 9087368K now JC-593225P), 19 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 May 2004).

Hav Kewal Krishan (No. 9087084A now JC-593226X), 19 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 May 2004).

Hav Mohd Nawaz Hajam, SM (No. 9095693Y now JC-593227A), 03 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004).

Hav Hans Raj (No. 9087818W now JC-593228H), 07 Jun 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 May 2004).

Hav Surinder Singh (No. 9087477W now JC-593229L),
03 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004).

Hav Mohinder Parkash (No. 9087503M now JC-593230A), 03 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004).

Hav Farzand Hussain (No. 9086848F now JC-593231H),
19 Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jun 2004).

Hav Abdul Majid (No. 9086051H now JC-593232L), 19
Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004).

Hav Kewal Singh (No. 9086846W now JC-593233N), 19
Jul 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004).

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Balwinder Singh (No. 3385196P now JC-499436Y),
20 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Apr 2004 without effect on pay & allces).

Hav Gurnam Singh (No. 3384007N now JC-499437F),
20 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Apr 2004 without effect on pay & allces).

Hav Harjit Singh (No. 3387073F now JC-499438K), 28
Jul 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13
Apr 2004 without effect on pay & allces).

Hav Lakhwinder Singh (No. 3382190H now JC-499439M), 21 Jul 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Jun 2004 without effect on pay & allces).

Hav Lakhbir Singh (No. 3385929H now JC-499440F),
21 Jul 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 03
Jun 2004 without effect on pay & allces).

Hav Sucha Singh (No. 3386261W now JC-499441K), 21
Jul 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 03
Jun 2004 without effect on pay & allces).

Hav Jastej Singh (No. 3388581K now JC-499442M), 18
Jul 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 18
Jun 2004 without effect on pay & allces).

THE RAJPUT REGIMENT

To be Naib Subedar Clerk

Hav (Clk) Radhey Shyam (No. 2983843M now JC-479398M), 01 Jul 2004

Hav (Clk) Gangeshwar Prasad Singh (No. 2983853W now
JC-479399P), 01 Jul 2004

Hav (Clk) Prabhaker Singh (No. 2983902N now JC-479400Y), 01 Aug 2004

To be Naib Subedar

Hav Om Prakash (No. 2984777F now JC-479401F), 26
Apr 2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Pal Singh (No. 2980900X now JC-479402K),
03 Mar 2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Lila Ram (No. 2983936F now JC-479403M), 22 May
2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pritam Singh (No. 2981675A now JC-479404P), 18
May 2004

Hav Lakhan Singh (No. 2979069L now JC-479405X),
25 May 2004

Hav Balwan Singh (No. 2978971A now JC-479406A),
01 Jun 2004

Hav Rajender Kumar (No. 2979589W now JC-479407H),
01 Jun 2004

Hav Man Bahadur Singh (No. 2983090K now JC-479408L), 01 Jun 2004

Hav Samunder Singh (No. 2980058L now JC-479409N),
01 Jun 2004

Hav Yad Ram Gujar (No. 2979516K now JC-479410H),
19 Jun 2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pahal Singh (No. 2980218A now JC-479411L), 01
Jun 2004

Hav Ajay Pal Singh (No. 2982186F now JC-479412N),
13 Jun 2004

Hav Sabal Singh (No. 2982905P now JC-479413W), 01
Jul 2004

Hav Chander Pal (No. 2979826P now JC-479414Y), 01
Jul 2004

Hav Lokinder Singh (No. 2979575W now JC-479415F),
01 Jul 2004

Hav Amar Singh Thakur (No. 2979162M now JC-479416K), 01 Jul 2004

Hav Kamlesh Singh (No. 2981812N now JC-479417M), 01 Jul 2004

Hav Dilip Kumar Mondal (No. 2983153K now JC-479418P), 01 Jul 2004

Hav Madan Singh (No. 2977218P now JC-489419X), 01 Jul 2004

Hav Om Parkash Sharma (No. 2979026W now JC-479420M), 01 Jul 2004

Hav Rajendra Singh Rajput (No. 2984805H now JC-479421P), 01 Jul 2004

Hav Bhanwar Singh Shekhawat (No. 2984666K now JC-479422X), 01 Jul 2004

Hav Raj Narayan Singh (No. 2985915K now JC-479423A), 01 Jul 2004

Hav Hansi Ram (No. 2981036Y now JC-479424H), 01 Jul 2004

Hav Ajab Singh Pundir (No. 2980613N now JC-479425L), 29 Jul 2004

Hav Kanahaiya Lal Gujar (No. 2981719M now JC-479426N), 01 Aug 2004

DIWAKAR
Under Secy.

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

No. 21, dated the 09th December 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Subedar : Personal Assistant

Naib Subedar Ram Niwas Rahar (JC-642216A), 01 Jan 2004

Naib Subedar Raj Karan Mishra (JC-642239F), 01 Feb 2004

Naib Subedar Satpal (JC-642240W), 01 Mar 2004

Naib Subedar Dharam Vir Singh (JC-642217H), 01 Feb 2004

Naib Subedar Manindra Chandra Das (JC-642009N), 18 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2003 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Lalan Yadav (JC-642242F), 01 Apr 2004

Naib Subedar Ashok Kumar Bhushan (JC-642243K), 01 Apr 2004

Naib Subedar Shiv Kumar Sharma (JC-642246X), 01 Apr 2004

Naib Subedar Tejender Singh Chauhan (JC-642247A), 01 Apr 2004

Naib Subedar S Muthu Krishnan (JC-642249L), 01 Apr 2004

Naib Subedar Ashim Kumar Das (JC-642158F), 19 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2003 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Sitansu Saha (JC-642250A), 01 May 2004

Naib Subedar Rajendra Prasad Yadav (JC-642251H), 01 May 2004

Naib Subedar Ramachandran U (JC-642253N), 01 May 2004

Naib Subedar Ganesh Chandra Sahoo (JC-642008L), 01 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Dec 2003 without effect on pay and allces).

To be Subedar : Clk (GD/SD)

Naib Subedar Anandan A (JC-641845L), 01 Sep 2003

Naib Subedar Pradip Kumar Ghatak (JC-642115M), 16 Dec 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Yogendar Singh (JC-641857A), 01 Dec 2003

Naib Subedar Surendra Singh Bishta (JC-641859L), 01 Jan 2004

Naib Subedar Ram Kripal Singh (JC-641864W), 01 Jan 2004

Naib Subedar Prabhu Prasad Singh (JC-641868M), 01 Feb 2004

Naib Subedar Tarseem Lal (JC-641871M), 01 Mar 2004

Naib Subedar Kamlesh Ram (JC-641872P), 01 Mar 2004

Naib Subedar Ram Niwas (JC-641846N), 29 Mar 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Prem Pal Singh (JC-641858H), 01 Dec 2003

Naib Subedar Rashpal Singh Mehta (JC-642116P), 29 Mar 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Pratip Kumar Shangani (JC-641861H), 01 Jan 2004

Naib Subedar Sanat Kumar Chattopadhyay (JC-641865Y),
01 Jan 2004

Naib Subedar Jhumar Lal (JC-641867K), 01 Jan 2004

Naib Subedar Parve Narayan Ananda (JC-641870K), 01
Feb 2004

Naib Subedar Shri Chandrakant Kalika Prasad Pande (JC-
641873X), 01 Apr 2004

Naib Subedar Sasi Kumar M (JC-641874A), 01 Apr 2004

Naib Subedar Girja Shankar (JC-641869P), 21 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2004 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Narender Kumar (JC-641875P), 01 May
2004

Naib Subedar Khadga Singh Chauhan (JC-641970P), 01
May 2004

Naib Subedar Vijay Kumar Bhatia (JC-641862L), 21 Aug
2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2004 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Tapas Kumar Datta (JC-641971X), 04 Jul
2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without
effect on pay and allces).

Naib Subedar Banshi Dhar (JC-641972A), 01 Jul 2004

R. CHATURVEDI
Under Secy.

No. 22 dated the 13th December 2004.—The President
is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub Maj

PA Sub Maj Baleshwar Singh Yadav (JC-211935K), 01
May 2004

PA Sub Maj Chinta Palli Venkata Seshiah (JC-211977W),
26 Jul 2004@

@(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul
2004 without effect on pay and allowances).

PA Sub Maj Prabhat Kumar Pandit (JC-211940P), 01 Aug
2004

PA Sub Maj Babaji Charan Nayak (JC-213341N), 06 Sep
2004#

#(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep
2004 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar

Hav Vijendra Kumar (No. 9509576P now JC-803613M),
09 May 2004@

Hav Suresh Chander (No. 9509578A now JC-803615X),
11 May 2004@

Hav Sunil Kumar Tomar (No. 9509585W now JC-
803619N), 28 Jun 2004@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh Takam (No. 9509618W now JC-
803634H), 28 Jun 2004#

Hav Jagat Singh Rawat (No. 9509620N now JC-
803635L), 01 Jun 2004

Hav Sudhish Singh Gangwar (No. 9509634N now JC-
803642F), 01 Jun 2004

Hav Vinod Kumar Singh (No. 9509640F now JC-
803644M), 19 Jun 2004#

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun
2004 without effect on pay and allowances).

Hav Virendra Singh (No. 9509644X now JC-803648H),
01 Jul 2004

Hav Brahm Shanker Tiwari (No. 9509646H now JC-
803649L), 01 Jul 2004

Hav Kedar Nath Tiwari (No. 9509648N now JC-
803650A), 01 Jul 2004

Hav Subhash Chandra Yadav (No. 9509650L now JC-
803651H), 01 Jul 2004

Hav Krishan Kumar (No. 9509654F now JC-803652L),
01 Jul 2004

Hav Gopal Tripathi (No. 9509657P now JC-803653N),
01 Jul 2004

Hav Soneet Singh (No. 9509685F now JC-803654W), 01
Jul 2004

Hav Vijay Kumar (No. 9509686K now JC-803655Y), 01
Jul 2004

Hav Satrughna Panda (No. 9509688P now JC-803656F),
01 Jul 2004

Hav P Thangaraj (No. 9509690M now JC-803657K), 01
Aug 2004

Hav Pankaj Kumar (No. 9509695L now JC-803658M),
02 Aug 2004\$

Hav Dharam Pal (No. 9509698Y now JC-803659P), 01
Aug 2004

Hav Indrev Singh (No. 9509699F now JC-803660K), 01
Aug 2004

Hav Puran Chandra Chaubey (No. 9509702W now JC-803661M), 01 Aug 2004

Hav Anil Kumar (No. 9509710P now JC-803662P), 02 Aug 2004\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Anjani Kumar Sinha (No. 9509711X now JC-803663X), 01 Sep 2004

Hav Diwan Singh Mehra (No. 9509712A now JC-803664A), 01 Sep 2004

Hav Samunder Singh (No. 9509714L now JC-803665H), 04 Sep 2004%

Hav Dilbag Singh (No. 9509716W now JC-803666L), 02 Sep 2004%

Hav Vijay Kumar Dabas (No. 9509717Y now JC-803667N), 01 Sep 2004

Hav Madan Mohan (No. 9509719K now JC-803668W), 01 Sep 2004

Hav Jaskaran Singh (No. 9509720Y now JC-803669Y), 01 Sep 2004

Hav Shishupal Singh (No. 9509722K now JC-803670N), 01 Sep 2004

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

V. K. KAPOOR
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

No. 23, dated the 10th December 2004.—The President is pleased to promote Shri BYV Krishna Rao, Draughtsman Grade I to the grade of Chief Draughtsman, Group 'B' Gazetted in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 05 Jan 2004 (Forenoon).

He will remain on probation for a period of two years.

The President is pleased to promote Shri G Padmanabhan, Draughtsman Grade I to the grade of Chief Draughtsman, Group 'B' Gazetted in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 19 Mar 2004 (Forenoon).

He will remain on probation for a period of two years.

The President is pleased to promote Shri Murli Ram, Office Superintendent to the grade of EME Officer (Civilian) in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 28 Jan 2004 (AN).

He will remain on probation for a period of two years.

The President is pleased to promote Shri Tukaram Savale Ram Lohakare, Office Superintendent to the grade of EME

Officer (Civilian) in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 23 Feb 2004 (Forenoon).

He will remain on probation for a period of two years.

N. K. KASHMIRA
Under Secy.

No. 24, dated 13th December 2004—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY (Armoured Corps)

To be Nb Ris

Dfr Janak Singh (No. 01075582H now JC-240741K), 19 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Braj Nath Singh (No. 01067092A now JC-240747L), 10 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Ram Singh (No. 01069425A now JC-240749W), 09 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Shankar Ram Vishnoi (No. 01071451A now JC-240751N), 02 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Balwinder Singh (No. 01078418L now JC-240754F), 30 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Sultan Singh (No. 01075064H now JC-240755K), 21 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Muralitharan G (No. 01067766M now JC-240758X), 03 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr SA Alagar (No. 01068061M now JC-240759A), 03 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Narinder Singh (No. 01070965L now JC-240760P), 02 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Hawa Singh (No. 01074610X now JC-240762A), 10 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Pramod Kumar Singha (No. 01068535H now JC-240763H), 01 Aug 2004

Dfr Gangappa Boodigoppa (No. 01067059H now JC-240764L), 01 Aug 2004

Dfr Subish Kumar Tyagi (No. 01066996N now JC-240765N), 01 Aug 2004

Dfr Vasant T (No. 01066271N now JC-240767Y), 01 Aug 2004

Dfr Achla Ram (No. 01072412N now JC-240768F), 09 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Sukhdab Singh (No. 01067630H now JC-240769K), 02 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Jagveer Singh Poonia (No. 01068018L now JC-240770Y), 02 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Hardev Singh (No. 01070433L now JC-240771F), 10 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Gurmeet Singh (No. 01078634Y now JC-240772K), 01 Aug 2004

Dfr Darshan Singh (No. 01078912F now JC-240773M), 01 Aug 2004

Dfr Balbir Singh (No. 01064878F now JC-240784Y), 05 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances.)

Dfr Rakesh Singh Kushwah (No. 01066210W now JC-240786K), 07 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Attada Madhava Rao (No. 01074292Y now JC-240787M), 13 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr G Munu Samy (No. 01066721A now JC-240788P), 03 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr G G Krishna Murthy (No. 01073990P now JC-240789X), 02 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr William Masih (No. 01066020K now JC-240790M), 06 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Sunder Singh (No. 01067277F now JC-240791P), 05 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Bir Singh (No. 01071509M now JC-240792X), 09 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Upendran V (No. 01072213A now JC-240793A), 09 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Ashok Kumar (No. 01066544L now JC-240794H), 09 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Ghan Shyam Dass Yadav (No. 01083947F now JC-240803Y), 04 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Gadadhare Arjun Bal Bhim (No. 01073935Y now JC-240805K), 13 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Ajit Saikia (No. 01070890Y now JC-240807P), 13 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Vaman (No. 01075655K now JC-240808X), 13 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Kunan Singh (No. 01065042W now JC-240810P), 07 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Jagdish Singh Poonia (No. 01068935P now JC-240811X), 07 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Rajesh Singh (No. 01075469N now JC-240813H), 16 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Bhagirath Sharma (No. 01067473F now JC-240815N), 03 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Jasbir Singh (No. 01069073N now JC-240816W), 09 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Prabhu Ram Nayak (No. 01066796X now JC-240818F), 11 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Kuldip Singh (No. 01072600P now JC-240819K), 13 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Kale Subhash (No. 01073129M now JC-240820Y), 13 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr M Ravi (No. 01066868W now JC-240821F), 03 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Mathew V C (No. 01075197Y now JC-240824P), 02 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Jas Pal Singh (No. 01078728W now JC-240825X), 04 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Chandra Bhan Yadava (No. 01075624K now JC-240827H), 04 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Satyapal Singh (No. 01072388H now JC-240831L), 09 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Bijan Kanti Sen (No. 01067966H now JC-240832N), 03 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr N Ravindran (No. 01068250W now JC-240833W), 03 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Sri Narayan Mishra (No. 01072849F now JC-240837M), 14 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Rakash Pal Singh (No. 01071811L now JC-240838P), 14 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Sunder Lal (No. 01072859L now JC-240839X), 14 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Dfr Baljeet Singh (No. 01078790H now JC-240842X), 01 Aug 2004*

(To be Substantive Risaldar)

Naib Risaldar Ram Dayal (JC-237668L), 27 Jul 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Heer Singh (JC-238415H), 26 Jul 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Satvir Singh (JC-238778M), 12 Aug 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 06 Jul 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Bhanu Pratap Singh (JC-238135P), 25 Aug 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Om Prakash (JC-239276W), 19 Oct 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Ramesh Kumar (JC-239684F), 31 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Bajrang Singh (JC-239713L), 27 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Promod Prasad Singh (JC-248401H), 12 Mar 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Dala Ram Chaudhary (JC-238423F), 01 Nov 2003

Naib Risaldar Shambhu Nath Yadav (JC-238378A), 06 Dec 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Narayana HM (JC-239432P), 02 Dec 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Gausak Haddar Sanadi (JC-239204M), 10 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Bhagirath Mahto (JC-239461K), 01 Dec 2003

Naib Risaldar Hari Singh (JC-239124P), 01 Dec 2003

Naib Risaldar Shiv Pal Singh (JC-239127H), 22 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Om Prakash (JC-239573K), 12 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Triveni Prasad Patel (JC-238063W), 11 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Suresh Chand (JC-239206X), 03 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Madan Lal (JC-238332X), 03 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Girdhari Singh (JC-239136K), 02 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Sultan Singh (JC-238498Y), 01 Mar 2004

Naib Risaldar Ram Gopal Singh (JC-238251X), 03 Mar 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Bhuban CH Borah (JC-238803A), 01 Mar 2004

Naib Risaldar Kalyan Singh (JC-238487M), 01 Mar 2004

Naib Risaldar Anil Kumar (JC-238041X), 01 Apr 2004

Naib Risaldar Shaji K (JC-238888F), 24 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Umesh Chandra (JC-239534L), 06 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances.)

Naib Risaldar Laxman Singh (JC-239213N), 02 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances.)

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 25, dated 15th December 2004—The President is pleased to make the promotion of the under mentioned AMC officers with effect from the date mentioned against each :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
Major to be Lt Col

J S Sandhu (MR-06024A), AMC—01 Dec 2003

M S Gill (MR-06028W), AMC—01 Dec 2003

S Sanghi (MR-06050F), AMC—01 Dec 2003

M S Deora (MR-06167A), AMC—12 Jun 2004

S S Muthu (MR-06612N), AMC—01 Sep 2004

Pankaj Kumar (MR-06721A), AMC—16 Aug 2002

M Gupta (MR-06150M), AMC—12 Jun 2004

Capt to be Major

Karnesh Chand (MR-07238H), AMC—05 Feb 2004

Sumit Arora (MR-07284X), AMC—05 Feb 2004

B Dahi (MR-07354L), AMC—24 Jun 2004

Ravi Kant Narain (MR-07360Y), AMC—27 Jun 2004

Nitin Bajaj (MR-07256L), AMC—05 Feb 2004

Amina Farhi (MR-07691A), AMC—10 Jul 2003

Surg Lt Cdr to Surg Cdr

A S Mann (MR-06717X) (75507), AMC—18 May 2004

Z A Shamcem (MR-06719H) (75502), AMC—16 Aug 2004

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Y T Rao (MR-07283P) (75688), AMC—05 Feb 2004

M SRIVASTAVA
Maj Gen.
Addl. DGAFMS

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 26, dated 14th December 2004—The President is pleased to promote the following Scientists of PXE, Balasore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2004 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which promoted	Pay Scale of promoted Grade
1.	Sh. G. C. Das	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400
2.	Sh. P. K. Dasgupta	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300
3.	Sh. T. K. Biswal	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
4.	Sh. S. Nandy	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of LRDE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2004 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which promoted	Pay Scale of promoted Grade
1.	Sh. Ramachandra Kuloor	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400
2.	Dr D. C. Pande	Sc 'F'	Sc 'G'	-do-
3.	Sh. U. C. Holla	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000
4.	Smt. S. Uma	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
5.	Sh. Gorthi Surya Prasad	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
6.	Sh. P. Kurian Varghese	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
7.	Sh. Samir Das	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
8.	Sh. KR Narayana Swamy	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
9.	Sh. A. Balaji	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
10.	Smt. Tanuja Vijayakumar	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
11.	Sh. S. S. Nagaraj	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
12.	Sh. S. M. Nagaraj	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300
13.	Sh. C.H. Srinivasa Rao	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
14.	Smt. K.S. Beenamole	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500
15.	Sh. Suchit Rajagopal	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-
16.	Sh. S. D. Suresh	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-
17.	Smt. Madhu Misra	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-

The President is pleased to promote the following Scientists of HEMRL, Pune from their existing grade to the

next higher grade with effect from 01.07.2004 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which promoted	Pay Scale of promoted Grade
1.	Dr. B. R. Gandhe	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400
2.	Sh. K. K. Saha	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000
3.	Sh. Pallab Roy	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
4.	Sh. R. K. Pandey	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
5.	Dr. P. R. Arya	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300
6.	Dr. (Mrs.) Nirmala Sikdar	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
7.	Sh. Sibes Chandra Bhattacharyya	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
8.	Sh. G. M. Gore	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
9.	Dr. G. C. Gandhi	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
10.	Sh. D. K. Das	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
11.	Sh. R. H. Brahmabhatt	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500
12.	Sh. M. A. Kulkarni	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-
13.	Sh. S. M. Pande	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-
14.	Sh. S. G. Sundram	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-
15.	Sh. Avinash Chander	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-

The President is pleased to promote the following Scientists of DRDE, Gwalior from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2004 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which promoted	Pay Scale of promoted Grade
1.	Dr. Harsh Vardhan Batra	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400
2.	Dr. Beer Singh	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000
3.	Dr. S. J. S. Flora	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
4.	Dr. G. S. Agarwal	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300
5.	Sh. Bidhan Chandra Bag	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500
6.	Dr. A. K. Gupta	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-

The President is pleased to promote the following Scientists of MTRDC, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2004 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which promoted	Pay Scale of promoted Grade
1	2	3	4	5
1.	Dr. K. Seetharama Bhat	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000
2.	Dr. Sudhir Kamath	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
3.	Sh. S. Uma Maheswara Reddy	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-

1	2	3	4	5
4.	Sh. R. Seshadri	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300
5.	Sh. V. Nallasamy	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500
6.	Sh. B. Joghee	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-

Shri AP Regu Kumar, Sc 'D' while posted as Deputy Technical Adviser in Embassy of India, Moscow, to be Sc 'E' in the same post and same Embassy with effect from 01 Jul 1999 (F/N) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300.

The President is pleased to promote Shri M Sheik Althaf, Sc 'D' of LRDE, Bangalore to the next higher grade of Sc 'E' in the same Establishment with effect from 01 July 2003 (F/N) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300.

The President is pleased to promote Shri Amarjit Das, Sc 'D' of RCMA, Kanpur, to the next higher grade of Sc 'E' in the same establishment with effect from 01 July 2003 (F/N) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300.

Shri R W Nagarkar, Scientist 'C', HEMRL, Pune to be Scientist 'D' in the same lab with effect from 05 Jul 2004 (F/N) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500.

The President is pleased to promote Smt. Sumati Sharma, Sc 'C' DESIDOC to next higher grade of Sc 'D' in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500 with effect from 01-07-2000 (F/N) in the same lab.

- J. K. KHADWAL
Jt. Dir. (Pers)

ARMY BRANCH

No. 27, dated 13th December 2004—The President is pleased to permit the following TA officers to resign their Commission :—

TERRITORIAL ARMY RESIGNATION

TA-42445 Lt Nagender Singh Rathore Infantry, 06 Sep 2003

TA-42224 Lt Ravindra Pratap Vichare Infantry, 02 Aug 2004

TA-42451 Lt Rohit Sharma Infantry, 01 Mar 2003

TA-42367 Lt Unnat Sharma Infantry, 21 Sep 2004

ML SHARMA
Under Secy.

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 28, dated 10th December 2004—In Ministry of Defence Notification No. 294 dated 26 May 2004, published in Gazette of India No. 25 dated 19 June 2004 (Part I Section 4), under the heading 'Regular Army' Sub heading 'Defence Security Corps' below To be Nb sub (GD) :—

For—Hav Bimal Kumar Das (10273666-H) now JC-8415576N), 12 Jan 2004

Read—Hav Bimal Kumar Das (10273666-H now JC-841576N), 12 Jan 2004

T. K. M. PILLAI
Under Secy.